



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

आधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 1982/अग्रहायण 27, 1904

No. 207]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 1982/AGRAHAYAN 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सकल्प

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1982

सं० 1/1/81 ए०आई०एच०एच०की०--भारत सरकार ने अखिल भारतीय हथकरवा एवं हस्तशिल्प बोर्ड का संयुक्त गठन सकल्प सं० 1/1/81-ए०आई०एच०एच०बी० दिनांक 1-7-81 के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिये किया था। जिसकी स्थापना अखिल भारतीय हथकरवा बोर्ड के स्थान पर वाणिज्य मंत्रालय के मन्त्र पत्रा 4/57/74/टैक्स-- दिनांक 20-5-76 और अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड जिसका गठन मूल रूप से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सकल्प संख्या 51--कोट० इण्ड० (1)/52 दिनांक 5-11-1952 द्वारा किया गया था और उसके पश्चात् समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया था। भारत सरकार ने अब यह निश्चय किया है कि उक्त अखिल भारतीय हथकरवा एवं हस्तशिल्प बोर्ड का पुनर्गठन किया जाय।

2 इस बोर्ड का कार्यालय इस प्रकार के भाग होने का तारोख दो वर्ष की अवधि के लिये होगा।

3. इस बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य होंगे --

अध्यक्ष

- 1 वाणिज्य मंत्री,
भारत सरकार,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली।

उपाध्यक्ष

- 2 उप-वाणिज्य मंत्री,
भारत सरकार,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली।
- 3 श्रीमती पुष्पल जयकर,
मन्त्रालय, (हथकरवा और हस्तशिल्प),
वाणिज्य मंत्रालय,
11 सकदंजग, मोड
नई दिल्ली।

सदस्य

- 4 प्रचार मंत्री, हथकरवा और हस्तशिल्प, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद।
- 5 प्रचार मंत्री, हथकरवा और हस्तशिल्प, असम सरकार, गोहाटी।
- 6 प्रचार मंत्री, हथकरवा एवं हस्तशिल्प, बिहार सरकार, पटना।
- 7 प्रचार मंत्री, हथकरवा एवं हस्तशिल्प, गुजरात सरकार, गांधी नगर।
- 8 प्रचार मंत्री, हथकरवा एवं हस्तशिल्प, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।
- 9 प्रचार मंत्री, हथकरवा एवं हस्तशिल्प, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 10 प्रचार मंत्री, हथकरवा एवं हस्तशिल्प, जम्मू एवं कश्मीर सरकार, श्रीनगर।

- 11 प्रभारी मंत्री हथकरघा एवं हस्तशिल्प, कर्नाटक सरकार, बंगलूरु ।
- 12 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम ।
- 13 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, महाराष्ट्र सरकार, भोपाव ।
- 14 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई ।
- 15 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, महाराष्ट्र सरकार, बंगलूरु ।
- 16 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, मेघालय सरकार, शिलांग ।
- 17 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, मणिपुर सरकार, कोहिमा ।
- 18 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, उत्तरांचल सरकार, देहरादून ।
- 19 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता ।
- 20 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 21 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, सिक्किम सरकार, गंगटोक ।
- 22 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, तमिलनाडु सरकार, मद्रास ।
- 23 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, त्रिपुरा सरकार, अगरतला ।
- 24 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
- 25 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता ।
- 26 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, पांडिचेरी सरकार, पांडिचेरी ।
- 27 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, मिजोरम सरकार, अइतल ।
- 28 प्रभारी मंत्री, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, अरुणाचल प्रदेश सरकार, इटानगर ।
- 29 सचिव (वस्त्र विभाग) वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- 30 वित्त सलाहकार, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, उद्यान भवन, नई दिल्ली ।
- 31 सलाहकार (ग्रामीण एवं लघु उद्योग), भारत सरकार, प्लानिंग कमिशन, योजना भवन, नई दिल्ली ।
- 32 सचिव, उद्योग विभाग, दिल्ली प्रमाणन, फार्मोरो रोड, नई दिल्ली ।
- 33 विकास आयुक्त (लघु एवं उद्योग) भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
- 34 प्रबन्ध निदेशक राष्ट्रीय आन्तरिक विकास निगम, 4 श्री इंडस्ट्रियल एरिया, होजसास, नई दिल्ली ।
- 35 प्रबन्ध निदेशक राष्ट्रीय कृषि बैंक एवं ग्रामीण विकास, पोस्ट बॉक्स नं० 6552, डा० एनीबेसेट रोड, बम्बई-18 ।
- 36 अध्यक्ष, उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग निगम, बामफले रोड, शिलोण ।
- 37 अध्यक्ष, खादी एवं ग्रामीण उद्योग संघ, 3 हरला रोड, विले पारले, बम्बई (पश्चिमी) ।
- 38 प्रबन्ध निदेशक, हथकरघा एवं हस्तशिल्प नियति निगम, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।
- 39 श्री अशोक चटर्जी, निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, 8 पालवो, महमदाबाद ।
- 40 श्रीमति मृणादनि साराभाई, 'चिवास्वरम', मद्रासबाद-380013 ।
- 41 प्रोफेसर के० जे० सुसामन्धिम, विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, पश्चिमी बंगाल ।
- 42 डा० कमला चौधरी, एपार्टमेंट-2-ए०, 33 पृथ्वी राज रोड, नई दिल्ली ।
- 43 श्री मरतब सिंह, डा० 11, पृथ्वी राज रोड, नई दिल्ली ।
- 44 श्री गुलाम गेख, कथा मकान, बंगौरा विश्वविद्यालय, बडोदा ।
- 45 श्री राजीव मेहता, सी० 49, सीधु बाग, नई दिल्ली ।
- 46 श्री शाकु चौधरी, डा० 11, पृथ्वी राज रोड, नई दिल्ली ।
- 47 श्री ना. नाटिका, प्रदीप राज, 74 तुन्दल रोड, ग्राउण्ड फ्लोर, नई दिल्ली-110003 ।
- 48 श्री चार्ल्स कारिया, 9 मेथियू रोड, चेन्नई ।
- 49 श्री एमि के० वाट्सन, निवास सारपेट, श्रीपुर हाऊस, आगरा ।
- 50 डा० आदित्य जै, 1 अमिता सोसाइटी, उम्मानपुरा, महमदाबाद ।
- 51 श्रीमती प्रेमा श्रीनिवासन, पश्चिमी दिशा, मकान नं० 2, अधिया कनक रोड, मद्रास-600099 ।
- 52 श्रीमती हार्मी जे० तिवारी, डा० राजगोबिन, गंगटोक, सिक्किम ।
- 53 श्री एम० पी० नाचिम्य, अध्यक्ष, चेन्नै मलाई बन्धन सहकारी समिति लि० चेन्नै मलाई, तमिलनाडु ।
- 54 श्री पी० राजगोपाल नायडू, अध्यक्ष, त्रिमूवता रेखा हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, थाजापुर, तमिलनाडु ।
- 55 श्री प्रभादा कोटाय, महासचिव आंध्र प्रदेश हथकरघा बुनकर कांग्रेस, निरुव्वारायु, आंध्र प्रदेश ।
- 56 श्री एम० एम० विजित, अध्यक्ष, वेदी नरु हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, वाधा एडोला, जिन्ना कुमल्ल, आन्ध्र प्रदेश ।
- 57 श्री वेन्ने सी० आरन, प्रबन्ध निदेशक एम्प्लोयर्स हथकरघा दुनाई फैक्टरी, केमलोर, केरल ।
- 58 श्री आर० बी० बेंट, मोणापुर, 16, गुरुद्वारेड, मद्रास ।
- 59 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन, सहकारी समिति, 2-मिन्डले स्ट्रीट, कलकत्ता ।
- 60 श्री बी० एम० पुस्तका मेडो, अध्यक्ष, मीनू प्रांतीय रेखा हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, जामा मस्जिद रोड, बंगलूरु-560002 ।
- 61 श्री गुलाम रसूल खान, मैगम गुराम मोहिनी एण्ड सन्स, रैजीबेरी रोड, श्रीनगर ।
- 62 श्री पुलकान सिंह बैकलीवान, रत्न श्री प्रामुखण नियति सर्वप्रति पार्श्वद निर्मल टावर, 26-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 ।
- 63 श्री सम्पाद मुतंजा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।
- 64 कुमारी महमूदा बेगम, 24-अकबर रोड, नई दिल्ली-110011 ।
- 65 श्री ए० रामाराज, पो० नं० 23, विनार्थ पट्टी, मद्रुरई, तमिलनाडु ।
- 66 श्री गेसू बाज, मकान नं० 22-1-865, मुलतानपुर, हैदराबाद-500021 ।
- 67 श्री इफ्ताख़ अहमद, 15/103 गार्ड की मण्डी, कांठे गली, आगरा ।
- 68 श्री मुहम्मद खुर्रम, सचिव, ग्राम आर्टवेयर उत्पादन एवं नियति एसांमिशन, जैन मन्दिर रोड, कोलकाता के नामने, मद्रासबाद ।
- 69 श्री गोविन्द चन्द्र तिवारी, 56-जो पूरन राम रोड, कलकत्ता-700029 ।
- 70 श्री शांति नागेश्वर सिंह दय, कलिया, जिन्ना पुर्निया पश्चिमी बंगाल ।
- 71 श्री पी० बन्धन स्टोका, 9-पथरीना रोड, नई दिल्ली-110001 ।
- 72 श्री ईश्वरी प्रसाद सिंह, जेद हट्टे दयतानगर जिन्ना पानामऊ ।

73. अध्यक्ष, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर।
74. श्रीमती सुशीला रोहिंगा, अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जीवन दीप बिल्डिंग, नई दिल्ली-110001।
75. श्री गुलाबचर मिश्रा, अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य उद्योगिक संघ, माइयापोटी, बघीही, जिला बन्सर।
76. श्री श्रीनिवास, उपाध्यक्ष, भारतीय चमड़ा उद्योगिक संघ, बी०ए०/1 न्युनि भवन, बैंक स्ट्रीट, कंगल बाग, नई दिल्ली।
77. श्री मनीनाथ महाराज, वास्तु और शिल्प, जिला लखनऊ, महाराष्ट्र।
78. एम०पी० ठाकुर आयोगिक सचिव, सट्टी बुनकर महामंडल समिति "शमशी", जिला कुल्लु, हिमाचल प्रदेश।
- सदस्य सचिव :-
79. एम०के० मिश्रा, विभाग आयुक्त (हस्तकर), वस्त्र विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011।
80. श्री शिरोमणि शर्मा, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र और नं० 7, गन्ताकुण्ड पुरम, नई दिल्ली-110022।

4 यह बोर्ड हस्तकर और हस्तशिल्प के समाज-आर्थिक, सांस्कृतिक और कलात्मक स्वयं को ध्यान में रखते हुए हस्तकर और हस्तशिल्प के सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को बनाने के लिए सरकार को सलाह देगा। यह बोर्ड विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में सलाह देगा :-

- देश की कच्चे की आवश्यकता को अधिकाधिक हस्तकर क्षेत्र के द्वारा पूर्ति करना।
- बेरोजगारी और अल्परोजगार को कम करने और बुनकरों और शिल्पकारों का रहन-सहन के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए हस्तकर और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करना।
- आपने हस्तकर और हस्तशिल्प की श्रम परम्परा को बनाये रखना और इसके आगे संवर्धन करना।
- देश और विदेशों में हस्तकर और हस्तशिल्प के विपणन विस्तार के लिए योजना बनाते हुए उपाय करना।
- विभिन्न राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों में इन क्षेत्रों के विकासार्थक प्रयत्नों में प्रभावी सहयोग स्थापित करने के लिए कदम उठाना।
- समय-समय पर विकास की प्रगति का पुनरीक्षण करना।
- हस्तकर विकास आयुक्त और हस्तशिल्प विकास आयुक्त इस बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

यह बोर्ड, यदि आवश्यक हो तो, सरकार को पूर्व अनुमति से निर्मात प्रथम उपनिमित्त विशेष नामिका की नियुक्ति कर सकता है।

अमृत कुमार दत्त, सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 18th December, 1982

No. 1/1/81-AIHBB.—The Government of India had constituted a Joint Board, the All India Handloom and Handicrafts Board, vide Resolution No. 1/1/81-AIHBB dated the 1st July, 1981, for a period of one year (in place of the All India Handloom Board which had been set up under the Ministry's Resolution

No. 4/57/74/Tex. IV dated the 20th May, 1976 and the All India Handicrafts Board which was originally set up under the Ministry of Commerce and Industry Resolution No. 51-Cot. Ind(I)/52 dated the 5th November, 1952 and subsequently re-constituted from time to time. Government of India has now decided to re-constitute the said All India Handloom and Handicrafts Board.

2. The term of Office of the Board will be for a period of two years with effect from the date of this Resolution.

3. The Board will consist of the following members :—

CHAIRMAN

- Minister of Commerce, Government of India, Udyog Bhawan, NEW DELHI.

VICE-CHAIRMAN

- Deputy Minister of Commerce, Government of India, Udyog Bhawan, NEW DELHI.
- Smt. Pupal Jayakar, Adviser (Handlooms & Handicrafts), Government of India, 11, Safdarjung Road, NEW DELHI.

MEMBERS

- Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.
- Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Assam, Gauhati.
- Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Bihar, Patna.
- Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Gujarat, Gandhi Nagar.
- Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Haryana, Candigarh.
- Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Himachal Pradesh, Simla.
- Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Jammu & Kashmir, Srinagar.
- Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Karnataka, Bangalore.
- Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Kerala, Trivandrum.
- Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

14. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Maharashtra, Bombay.
15. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Manipur, Imphal.
16. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Meghalaya, Shillong.
17. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Nagaland, Kohima.
18. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Orissa, Bhubaneswar.
19. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Punjab, Chandigarh.
20. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Rajasthan, Jaipur.
21. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Sikkim, Gangtok.
22. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Tamil Nadu, Madras.
23. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Tripura, Agartala.
24. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
25. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of West Bengal, Calcutta.
26. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Pondicherry, Pondicherry.
27. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Mizoram, Aizawl.
28. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Assam, Dispur.
29. Secretary to the Government of India, Department of Textiles, Ministry of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi.
30. Financial Adviser, Government of India, Ministry of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi.
31. Adviser (Village & Small Scale Industries), Government of India, Planning Commission, Yojana Bhawan, New Delhi.
32. Secretary, Industries Department, Delhi Administration Kashmere Gate, New Delhi.
33. Development Commissioner (Small Scale Industries), Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi.
34. Managing Director, National Cooperative Development Corporation, 4-Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi.
35. Managing Director, National Bank for Agriculture and Rural Development, Post Box No. 6552, Dr. Ambedkar Road, Bombay-18.
36. Chairman, North Eastern Handicrafts & Handlooms Development Corporation, Bomfale Road, Shillong.
37. Chairman, Khadi & Village Industries Commission, 3, Tula Road, Ville Parle, Bombay (West).
38. Managing Director, Handlooms & Handicrafts Export Corpn., Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
39. Shri Ashok Chatterjee, Director National Institute of Design, Paldi, Ahmedabad.
40. Smt. Minnalini Sarabhai, 'Chidambaram' Ahmedabad-380013.
41. Prof. K. G. Subramanian, Viswa Bharati University, Shantiniketan, West Bengal-731235.
42. Dr. Kamala Chowdhary, Apartment-2 A, 33-Prithviraj Road, New Delhi.
43. Shri Martand Singh 'Gulrang' Ghoshan, Ahmedabad-380004.
44. Shri Ghulam Sheikh, Faculty of Fine Arts, University of Baroda, Baroda.
45. Shri Rajeev Sethi, 71, Nili Bagh, New Delhi.
46. Shri Sanjiv Choudhary, 34, Post Office Kailash, New Delhi.
47. Smt. Leela Varadachari, 71, Sunder Naga, Ground floor, New Delhi.
48. Shri Charles Correa, 9 Vastu Road, Bombay.
49. Shri H. K. Watal, 1, Dash Gupta, Dabholi House, Agartala.
50. Dr. Jyotindra Jain, 1, Ambedkar Road, Usmanpura, Ahmedabad.
51. Smt. Priya Srinivasan, West Side House No. 2, Adayar Club Gate Road, Madras-600028.
52. Smt. Homi J. Talyarkhan, Raj Bhavan, Gangtok, Sikkim.
53. Shri M. P. Nachimuthu, President Chennimalai Weaver's Cooperative Society Ltd., Chennimalai, Tamil Nadu.
54. Shri P. Rajagopal Naidu, President, Tribuvanam Silk Handloom Weavers Cooperative Society Ltd., Tribuvanam, P.O. Thanjavur Distt., Tamil Nadu.

55. Shri Pragada Kotaiah, General Secretary, Andhra Pradesh Handloom Weavers Congress, Nidubrolu, A.P.
56. Shri M. S. Sivanna, President, Yemmignaur Handloom Weavers Cooperative Society, Yemmignaur P.O. Distt. Karnool, Andhra Pradesh.
57. Shri Wesley C. Aaron, Managing Director, Excelsior Handloom Weavers Factory, Cannanore, Kerala.
58. Shri R. V. Bct, 16-Guruwarpet, Solapur, Maharashtra.
59. Chairman/Vice-Chairman, All India Handloom Fabrics Marketing Coop. Society Ltd., 2 Lindsay Street, Calcutta.
60. Shri B. S. Puttanna Setty, President, Mysore Previsncial Silk Handloom Weavers Coop. Societv Ltd., Jama Masjid Road, Bangalore.
61. Shri Ghulam Rasul Khan, M/s. Ghulam Mohiddin & Sons, Residency Road, Srinagar-190001.
62. Shri Sultan Singh Backliwal, Gem & Jewellery Export Promotion Council, Nirmal Tower, Barakamba Road, New Delhi.
63. Shri Syed Murtaza, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.
64. Ms. Mehmda Beghunn, 24-Akbar Road, New Delhi-110011.
65. Shri S. Ramaraj, P.B. No. 23, Chinnalapetti Distt., Madurai, Tamil Nadu.
66. Shri Gesudraz, H. No. 22/1/865m, Sultanpura, Hyderabad.
67. Shri Iqbal Ahmed, 15/103, Nai Ki Mandi, Kako Gali, Agra.
68. Shri Mohd. Khurshid, Secretary, Brass Artware Manufacturers and Exporters Association, Jain Mandir Road, Opp. Kotwali, Moradabad.
69. Shri Govinda Chandra Vaskar, 56-G, Purna Das Road, Calcutta-700020.
70. Shri Shankar Narayan Singh Deo, Purulia Distt., Purulia, West Bengal.
71. Shrimati Thankama Stephon, 9-Krishna Menon Marg, New Delhi-110001.
72. Shri Ishwari Prasad Singh, Jail Hata, Dalton Ganj, Distt. Palamau, Bihar-822101.
73. Chairman, Central Silk Board, United Mansions, 2nd Floor, 39, Mahatma Gandhi Road, Bangalore-560001.
74. Smt. Sushila Rohtagi, Chairman, Central Social Welfare Board, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.

75. Shri Gulabdhhar Misra, President, All India Carpet Manufacturers Association, Kaleen Bhawan, Maryadpat Bhadhohi, Distt. Varanasi.
76. Shri Srinath, Vice-President, Clothing Manufacturers Association of India, 50/2-3, Hanuman Road, New Delhi.
77. Shri Malinath Maharaj, Post at AUSA, Distt. Latur, Maharashtra.
78. Shri S. P. Thakur, Organising Secretary, Bhatti Weavers Coop. Society, Shamshi, Distt. Kullu, Himachal Pradesh.

MEMBER SECRETARIES

79. Shri S. K. Misra, Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi.
80. Shri Shiromani Sharma, Development Commissioner for Handicrafts, Ministry of Commerce, West Block No. VII, R. K. Puram, New Delhi.

The Board will advise Government in the formulation of the overall development programmes in the handloom and handicrafts sectors keeping their socio-economic cultural and artistic prospectives in view. In particular the Board will advise the Government regarding achievement of the following objectives :—

- (i) to meet the clothing needs of the country progressively from the handloom sector;
- (ii) to make handlooms and handicrafts effective instruments of reducing un-employment and under employment and achieving higher standards of living for weavers and craftsmen;
- (iii) to preserve and further promote the craft heritage of our handlooms and handicrafts;
- (iv) to devise strategies for expanding markets for handloom and handicrafts within the country and abroad;
- (v) to take steps for effective coordination of the developmental effects of the various state Governments/Union Territories in these sectors; and
- (vi) to review the progress of development from time to time.

The Development Commissioner for Handlooms and the Development Commissioner for Handicrafts will function as Member-Secretaries of the Board.

The Board may with the prior approval of Government appoint Committees or Sub-Committees/ Panels of experts as may be necessary.

A. K. DUTT, Secy.

